

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 646]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2014—पौष 10, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1867.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, पोरसा, जिला मुरैना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगरपालिका परिषद्, पोरसा, जिला मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	पुष्पा रामनिवास राठौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	अशोक सिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सरोज देवी शाक्य	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	रामनरेश राठौर	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	इंद्रपाल सिंह तोमर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	मंजू नरेंद्र तोमर	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मंजू डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	मदनमोहन कटारे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	रामजानकी डॉ. रामकिशोर सिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	नगरपालिका परिषद्, पोरसा, जिला मुँरैना.	पार्षद	9	नौ	सीमा सतीश खटीक	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	रामप्रसाद माहौर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	प्रहलाद सिंह राठौर (बाबा)	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	विसमिल्ला फिरोज खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	सुरेश सिंह तोमर	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	रुबी प्रथ्वीसिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सरोज बाई दाताराम	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1868.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, अम्बाह, जिला मुँरैना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	क्रमांक केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, अम्बाह, जिला मुँरैना.		-	-	रामनिवास सखवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	ब्रजराज विजय परमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	रेखा ओझा	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	रेनू धर्मवीर सिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	लक्ष्मी रामविलास कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	प्रतिमा मुकेश गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मनोज शिवहरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	प्रमिलेश पुष्पेंद्र	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	शशी भूप सिंह तोमर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	वैजंती नाथूराम प्रजापति	बहुजन समाज पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सुनील सखवार उर्फ सुन्ना	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	प्रमोद सखवार	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	राजेंद्र उर्फ नीतू (चेला)	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रेखा सुभाष शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	नरेन्द्र सिंह मावई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	उर्मिला	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	नगरपालिका परिषद्, अम्बाह, जिला मुरैना.	पार्षद	16	सोलह	दीवान सिंह राठौर	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	सरोज देवी लालाराम सखवार	निर्दलीय
19		पार्षद	18	अठारह	उमेश जैन	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1869.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, सबलगढ़, जिला मुरैना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	क्रमांक केवल अंकों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, सबलगढ़, जिला मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती गीता सुरेश चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	श्रीमती रामस्वरूपी/मुन्नालाल टेगर	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	प्रेमचन्द्र गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती सियाबाई शिवहरे	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	मुमताज वानो जफरुद्दीन	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	अनबर खान	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	विजय सिंह शाक्य (कल्लू)	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	श्रीमती नूरन शरीफ खान	निर्दलीय
9		पार्षद	8	आठ	अरविन्द सोनी पुत्र श्रीराम सोनी	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	अनीता विवेक शर्मा (गुरु)	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	मीरा बाई छोटे लाल वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	रामदीन कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	लाखन भौरू बराई	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	दीपक खटीक	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	ममता रामशंकर सिंह जादोन	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कुलेन्द्र सिंह जादोन (टिंकू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	रजनी बबुआ जादोन	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	लक्ष्मी सोनेराम धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	अरविन्द सिंह (अन्नू) बस बाले	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1870.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बानमोर, जिला मुरैना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बानमोर, जिला मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	विमला भगवान सिंह	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	नेतराम यादव	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	केशव सिंह गुर्जर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	मुन्नी देवी कमल किशोर शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	केशकली भारत सिंह गुर्जर	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	राधे	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	उर्मिला बासुदेव सैमिल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	बानो रफीक अहमद	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	नीतू अजय जाटव	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	कमला रामअवतार राठौर	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	अनीता जेट महेन्द्र राजपूत	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	नीरू रामबीर घुरैया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	सुरेश सिंह कुशवाह	बहुजन समाज पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	कालीचरन जाटव	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	जसरथ सिंह अटारिया (मास्टर)	बहुजन समाज पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	राधे कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1871.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, जौरा, जिला मुरैना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, जौरा, जिला मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	रूषा सुनील सिंहल	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	नगर परिषद्, जौरा, जिला मुरैना.	पार्षद	1	एक	कृष्णा मनोज कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	धर्मेन्द्र उर्फ भोला भैया	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	रामहेत मौर्य	बहुजन समाज पार्टी
5		पार्षद	4	चार	भूरा नरेश सिकरवार	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	सुरेश भीखम सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	डोली गोपाल दास मंगल	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	विशम्भर दयाल अग्रवाल (ट्रंसपोर्ट वाले)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	जलाल खां	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	मालती बंटी रावत	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	सलीम खां	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	रितु राहुल शर्मा (भूरा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	महेशचन्द्र मंगल (सुराकी)	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	विद्या रावत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	लता गोपाल कुशवाह	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अलका आनन्द अग्रवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	कमलेश रामनरेश शाक्य	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	टीकाराम	बहुजन समाज पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	सुनीता रामहेत जाटव	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1872.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, कैलारस, जिला मुरैना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, कैलारस, जिला मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती प्रतिभा तिवारी	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)
2		पार्षद	1	एक	मुन्नी रजक	बहुजन समाज पार्टी
3		पार्षद	2	दो	शान्ती वनवारी खटीक	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती मीरा महेश माहौरिया खटीक	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	महेश मुन्नालाल सोनी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	दिनेश वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	नगर परिषद्, कैलारस, जिला मुरैना.	पार्षद	6	छः	मुबीना दरोगा	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	नन्दकिशोर शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	कुलदीप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	वीरेन्द्र बसेडियां	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	ममता संदीप मरैया	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	गिरिजा पूरन गौड	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती दीपा उकार दुबे	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)
14		पार्षद	13	तेरह	रजनी बंटी उपाध्याय	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	विनय अशोक सिंह राणावत	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	विशम्बर दयाल सिंघल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1873.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, झुण्डपुरा जिला मुरैना के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, झुण्डपुरा जिला मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	बाबूलाल त्रिपाठी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	हरिचरण शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	मीरा	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	शिवनारायण मल्लाह	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	ऊषा पत्नी रामलखन गुर्जर	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	रामसिंह पुत्र गिरवर	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सुनीता पत्नी राजकुमार	बहुजन समाज पार्टी
8		पार्षद	7	सात	अशोक खटीक	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1) ' (2) (3) (4) (5) (6) (7)						
9	नगर परिषद्, झुण्डपुरा जिला मुरैना.	पार्षद	8	आठ	सुशीला मातादीन रजक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	सुनील सोनी	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	कम्पूरी/भीमसेन उर्फ पप्पू रावत	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	सुनीतादेवी पवन कुमार गुप्ता	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	नरेंद्र देव रविकर एडवोकेट	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	दीन दयाल रावत	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अशरफी पत्नी वेदम सिंह रावत	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रमेश जाटव	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.